

Caprihans India Limited

Shivsagar Estate Block D Dr. Annie Besant Road Worli Mumbai - 400 018 India Tel (91) 22 2497 8660 / 661 (B) Email : cil@caprihansindia.com GSTIN-27AAACC1646F1Z0 CIN- L29150MH1946PLC004877 www.caprihansindia.com

August 14, 2023

The Secretary
BSE Limited
Dept. of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai - 400 001.

Dear Sir,

Sub: Submission of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the

Quarter ended June 30, 2023

Ref: Scrip Code No - 509486

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of Newspaper Clippings of the publication of Unaudited Financial Results of the Company for quarter ended June 30, 2023, duly published in Free Press Journal (English) and Navshakti (Regional language) on August 13, 2023.

This for your information and record.

Thanking you,

Your Faithfully, For Caprihans India Limited

Pritam Paul CFO & Company Secretary

Encl: A/a



Regd. Office: Block D, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worfi, Mumbai - 400 018.

E-mail: cili@caprihansindia.com | Website: www.caprihansindia.com | Telephone: 0.72 24978/80/IJ. I CM: 1 2915/MH1948PI COMB477

Sr.		((Rs. in Crs Previous year ended		
No	Particulars	June 30, 2023	Mar 31, 2023	June 30, 2022	Mar 31, 2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	175.95	228.69	243,99	947.62
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	-11,06	3,84	-4,47	-21.49
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	-11.06	125.13	-4.47	105.33
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	-10,67	94,25	-5,03	71,76
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	-10.82	93.25	-5.00	70.83
3 7	Equity Share Capital (Face values of Reserve (excluding revaluation reserve) as	13.13	13.13	13.13	13.13
3	shown in the Audited Balance Sheet Earning per share (Face Value of Rs.10 each)	-	-	-	-109.77
9	(after exceptional items) Basic (Amount in Rs.) Earning per share (Face Value of Rs 10 each)	-8.13	71.76	-3.83	54.64
	(after exceptional items) Dijuted (Amount in Rs.)	-8.13	71,76	-3,83	54,64

(after exceptional items) Dituted (Amount in Rs.) OTES:

1) The above is an extract of the detailed format of results for the quarter ended June 30, 2023 filed with BSS immitted under Regulation 33 of the SEER (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full marted of the quarter (fineducial results are available on the Company's website (www.capithemsindia.com) are SE website (www.beendia.com).

For CARPHANS INDIA LIMITED.

FLOMIC

CIN - L-51900MH1981P.LC024340

Regd. Office: 301, Span Land Mark,145 Andhert Kurls Road, Andhert East, Mumbai 400093 IN Tel. No. 022-67312434/57313200 Fact/57312333 E-mail ID: csglflomicgroup.com

STATEMENT OF UN-AUDITED STANDALONE HINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30" JUNE, 2023 [8], in LAKH)

Particulars	0	Ouarter Ended			
	30-Jun-2023	31-Mar-23	30-Jun-22	Year Ended 31-Mar-23	
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	
Total Income from Operations	6823.65	7522.40	13957.17	42237.80	
Other Income	28.56	105.98	43.94	260.22	
Net Profit/(Loss)for the period(before Tax,					
Exceptional and/or Extraordinary items)	128.26	123.91	430.94	1279.58	
Net Profit /(Loss) for the period after tax					
(after Exceptional and/or Extraordinary					
items)	94.76	87.33	321.37	948.30	
Total Comprehensive Income for the					
period [Comprising Profit / (Loss) for					
the period (after tax) and Other					
Comprehensive Income (after tax)]	(13.62)	3.64	(1.57)	(1.06)	
Equity Share Capital	1816.84	1816.84	1816.84	1816.84	
Earnings Per Share (of Rs.10/- each)					
1. Basic:	0.52	0.48	1.77	5.22	
2. Diluted:	0.52	0.48	1.77	5.22	
Notes: -				•	

clotes: - The above is an extract of Quarterly Financial Result filed with Stock Exchange under Regulation 3 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular (or CIPCC-PR-CO16 dated July, 2 off.) The Full format of the financial Result for the quarter of the CIPC Control of the CIPC and CIPC and

For FLOMIC GLOBAL LOGISTICS LIMITED LANCY BARBOZA Managing Director DIN: 01444911

Advanced Enzyme Technologies Limited CIN.: L2420MH1989LC051018

Regd. Office and Corporate Office: Sun Magnetics, SF Floor, LIC Service Road, Louiswadl, Thane. -400604, Mahrasahtra, India. Tel No: 191-22-41703200 Fax No: 191-22-2535159

Website: www.advancederupmes.com, Email 16: sanjavj@davancederupmes.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

			ngs per share)				
		Quarter ended Year					
Particulars	30 June 2023 31 March 2023 3		30 June 2022	31 March 2023			
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			
		(refer note viii)					
Total income from operations	1,472.76	1,387.10	1,211.22	5,406.37			
Net Profit / (Loss) for the period (before tax,							
exceptional and/ or extraordinary items)	414.06	461.64	236.97	1,444.50			
Net Profit / (Loss) for the period before tax							
(after exceptional and/ or extraordinary items)	414.06	421.02	236.97	1,403.88			
Net Profit / (Loss) for the period after tax							
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	293.79	321.15	175.81	1,038.66			
Total Comprehensive Income for the period							
[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)							
and Other Comprehensive Income (after tax)]	273.39	290.27	407.02	1,584.95			
Equity Share Capital	223.65	223.65	223.61	223.65			
Reserves excluding Revaluation Reserve as							
per the last audited Balance Sheet				12,127.04			
Earnings Per Share of ₹ 2 each (not annualised)							
(for continuing and discontinued operations)							
Basic	2.58	2.87	1.60	9.45			
Diluted	2.58	2.87	1.60	9.45			
Notes:							

- The above unaudided consolidated financial results include the financial results of Advanced Enzyme Technologies Limited (the *Company of met *Hoding Company) and the financial results of the subsidiary companies, Advanced Bio-Apor Tech Limited (findla), Advanced Enzyme Southern Soutions Limited (findla), Advanced Enzyme Southern Soutions Limited (findla), Subsidiary Enzyme Soutions Private Limited (findla), Subsidiary Enzyme Soutions Private Limited (findla), Subsidiary Enzyme Involvation, Inc. (U.S.A.), Call naid Foods International (U.S.A.), Advanced Enzymenematry Technologies Corporation (U.S.A.), Enzyme Involvation, Inc. (U.S.A.), Dynamic Enzymes, Inc. (U.S.A.) (upon 31 March 2023), Advanced Enzymes, Inc. (U.S.A.) (upon 31 March 2023), Advanced Enzymes (India)ysial Scin. BMC, (Malaysia), Advanced Enzymes Lerupe B.V. (Netherlands) and Foxos Technologies Cembrid (Germany). The Holding Company and its subsidiary companies constitute financial results of the Company and the value of the State of the Company and the value of the State of the Company and the value of the Company and the Companies (March In above ensults that based energated in accordance with the Companies (March Comp

- Accounting Standards) Rules, 2015 (ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the setuth applicable.

 On 03 January 2023, the Company has acquired additional stake of 4.83% in its subsidiary JC Bloted Private Limited for consideration of Rs 88.00 million. Post this additional acquisition the Company hold 88.83% stake in JC Blotech Private Limited (SESPL) for 1 state consideration of Rs 98.93% stake in JC Blotech Private Limited (SESPL) for a total consideration of Rs 99.97 million SESPL is primarily proged into extending latest from pepays, uprifying and providing finish papain enzyme in liquid form (agriculture extraction of Papain enzyme). As of 31 March 2023, the Group has accounted for the acquisition and finished the purchase prive allocation. The Group on familiaring of purchase prior allocation has recognised fair value of Net Assets acquired of Rs, 32.52 million resulting in Goodelli of Rs and caucinities recognised in a value or verifices and quiet or 85.3 2.2 million resulting in Doublini or 15.5 to million. The figures for the three months and year ended 31 March 2023, which includes figures fo SESPL from the period 03 January 2023 to 31 March 2023, are not comparable with the previous corresponding periods.

 On 61 April 2023, the Group completed the acquisition of Shri Ganesh Industrial Enzymes (a partnership
- On 1 April 2022, the Coup completed the acquisition of Shri Ganesh Industrial Enzymes (a partnership firm based in Burharpur, Medalya Pradesh) (SGEP), through a situage also fa to the consideration of Rs. 307 million. The Circup on Infalliang of particiae price allocation has recognised fairly will be offered to acquire of Rs. 5.71 million resulting in Goodwill of Rs. 3.22 million.

 South of Rs. 5.71 million resulting in Goodwill of Rs. 3.22 million.

 The Circup of Rs. 5.71 million resulting in Goodwill of Rs. 3.22 million.

 The Circup of Rs. 5.71 million resulting in Goodwill of Rs. 3.22 million.

 The Circup of Rs. 5.71 million resulting in Goodwill of Rs. 3.22 million.

 The Circup of Rs. 5.71 million resulting in Goodwill of Rs. 3.22 million.

 The Circup of Rs. 5.71 million resulting in Goodwill of Rs. 3.22 million.

 The Allow unaudited consolidated financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and hereafter proposed by the Board Office of State (Pseudopie of Rs. 4.22).

 The Sparse for the quarter ended 31 March 2023 are the balancing figures between consolidate adulted figures in respect of the full financial year. Also, the figures up to the end of the third quarter of the relevant financial year. Also, the figures up to the end of the third quarter of the relevant financial year. Also, the figures up to the end of the third quarter for the company declared and paid interind dividend of Rs. 44- per equity share during the quarter.

- The Board of Directors of the Company obclatere and paid minimal reviews on vince, as "pie segury a wine security the quarter.

 Effective date? A pail 2023, loan given by the Company to Advanced Enzymes Europe B.V. (AEEBV, including the outstanding interest aggregating to Rs 329 million got converted into (2.276, 837 fully paid; use quity shares. The value per equity shares is EUR 1.83 and the face value of EUR 1 per share. Pursuant to this conversion, the Company or or history 42.76, 837 equity share of AEEBV and the Company continues to be 100% shareholder of AEEBV.

 The Board of Directors of the Company in its meeting held on 13 May 2023 have proposed the final divident for the financial year 2022-23 of Rs 1/- per equity share and the same will be paid after approval of the shareholder in Annual General Meeting of the Company.

 The key standalone financial Information are as under:

 Quarter ended Year ended

Quarter ended

Year ended

Particulars	30 June 2023	31 March 2023	30 June 2022	31 March 2023	
	Unaudited	Audited	Audited Unaudited		
		(refer note viii)			
Total income from operations	853.49	825.60	721.10	3,115.29	
Profit before tax	734.83	232.78	102.76	742.78	
Profit after tax	674.87	174.97	77.78	555.27	
By Order of the Boa					
				M M Kahra	

Place: Nashik Dated: 12 August 2023 Wholetime Director DIN: 00148294

MAYUR FLOORINGS LIMITED

14

(CIN L99999MH1992PLC064993)
Regd Off: 4/5A, Nr Advani Oeirlicon, LBS Marg, Bhandup (W) Mumbai 400078
Unaudited Financial Results for the quarter /

	period ende	ed as on 3	0.06.2023	(F	Rs. in Lacs)				
Sr.		Quarter	Quarter	Quarter	Previous Year				
Sr. No		Ended as on	Ended as on	Ended as on	Ended as on				
No	Particulars	30.06.23	31.03.23	30.06.22	31.03.23				
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited				
1	Net Sales / Total Income from Operations	100.08	66.62	95.2	304.9				
2	Net Profit / Loss from ordinary activities after								
	finance cost but before exceptional items	1.46	2.65	1.77	5.66				
3	Net Profit for the period before tax								
	(After exceptional items)	1.46	2.65	1.77	5.66				
4	Net Profit after tax and after exceptional items.	1.16	-0.73	1.47	1.68				
5	Paid-up equity share capital	507.12	507.12	507.12	507.12				
6	Basic and diluted EPS after Extraordinary								
	items for the period.	0.03	-0.02	0.03	0.1				
The above results is an extract of the unaudited Financial results for the quarter / Period ended 30th June, 2023									

SSE website www.tseniona.com The above results were taken on record and approved in the meeting held on 12.08.2023 after review by audit committee Previous period figures were regrouped, wherewer necessary. Since more than 90% of revenue of the Company comes from single segment, segment reporting has not been giver

Director

SIMPLEX CASTINGS LIMITED

CIN- L27320MH1980PLC067459

Reg. Office: 601/602A, Fair Link Centre, Off Andheri Link Road, Andheri (West),
Murphai (40062 L. Empl. co@inipulayacetings.com)

					(Rs. in Lac
٠.			Quarter ende		Year Ende
SI No	Particulars Particulars		31.03.2023		31.03.202
NO		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited
1	Total Income from Operations	3529.74	4504.07	1628.95	11790.1
2	Net Profit/(Loss) from operations				
	before exceptional items and tax	12.78	52,32	27.98	235.5
3	Net Profit/(Loss) before tax	63.34	52.32	(1368.45)	(1890.2
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	43.97	(108.90)	(1026.99)	(1698.8
5	Total Comprehensive Income for the period				
	(Comprising Profit/(Loss) and other Comprehensive				
	income for the period)	43.97	(122.96)	(1029.01)	(1712.9
6	Paid-up equity share capital	613.12	613.12	613.12	613.
	(Face Value of the Share shall be indicated)	10,00	10,00	10,00	10,
7	Other Equity				2435.
8	Earnings Per Share of Rs 10/- each (not annualised):				
	a) Basic	0.72	(1.78)	(16.75)	(27.7
	b) Diluted	0.72	(1,78)	(16.75)	(27,7

tes:
The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges urequisition 33 of the SEEI (Listing Chligations and Dischosure Requirements) Regulations, 2015, The format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bsimidia.com and or Company website www.simiplexastings.com,
The above results were reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 12th August, 2023 approved by the Board of Directors in its meeting held on 12th August, 2023.

For, Simplex Castings Limite

Date : 12.08.2023 Place : Bhilai

Sangeeta Ketan Shah Managing Director

RR METALMAKERS INDIA LIMITED

		ne Quarter ended June 30, 2023 ₹ in Lakhs (Except E Results				
		Quarters		Years Ended		
Sr.		30-Jun-2023				
No.		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited	
1	Total Income from operations	4,982.39	1,972.25	1,504.84	8,460.47	
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,					
	Exceptional and/or Extraordinary items)	44.64	(24.99)	47.72	(109.03)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax					
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.64	(24.99)	47.72	(109.03)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax					
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	21.08	(24.80)	53.21	(102.95)	
	Total Comprehensive Income for the period					
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)					
	and other Comprehensive Income (after tax)]					
6	Equity Share Capital	900.88	781.07	900.88	900.88	
	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in					
	the balance sheet)		-		-	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
	Basic	0.25	(0.33)	0.64	(1.23)	
10	Diluted	0.25	(0.33)	0.64	(1.23)	

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements). The filled principles of the Regulations, 2073 the full format of the Quarterly Financial Results are available on the Sbock. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Companis in finering field on August 17, 2023.

 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Companis in finering field on August 17, 2023.

 The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards(ND-AS) as prescribed to the Companis in Carlo 2013, nead with the relevant rules issued in the remunder and other accounting principles generally accepted in India. Accordingly services period 5 figures have been reductabilled "Girgospoth" resident before reviews 8 y order of the Board of Directors.

Mumbai, 11/08/2023 Whole Time Director DIN- 00764424

SAGAR SYSTECH LIMITED

CIN: 1.65990MH1984PLC032779

Registered Address: 12A/1, New Sion C.H.S. Ltd., Opp. S. I. E. S. College, Sion (West), Mumbai - 400 c22. * 1ei - (022) 262305/1; 24018219

E-mail: info@sagarsystech.com • Website: www.sagarsystech.com

Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30-06-2023

_						
Sr.			Quarter Ended		Year Ended	
No.	PARTICULARS	30.6.2023	31.3.2023	30.6.2022	31.3.2023	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	23.30	56.19	-	65.15	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.57	51.52	(3.86)	45.89	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.57	51.52	(3.86)	45.89	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.60	51.64	(3.86)	46.13	
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	258.56	25.72	(68.36)	(93.53)	
6	Equity Share Capital	32.00	32.00	32.00	32.00	
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve in Last Audited Accounts)				102.90	
8	Earning Per Share (F.V. Rs. 10/- each)					
	a. Basic:	3.31	16.14	(1.21)	14.42	
	b. Diluted:	3.31	16.14	(1.21)	14.42	

The above results as reviewed by the Audit Committee have been approved at the meeting of the Board of Directors held on 11th August 2023. The statutory audious have expressed an unquisited audit opinion. These financiate interests are prepared to accordance with the Indian Accounting Standards (ind-45) as prescribed under Section 135 of the Companies Act, 2015 read with Pfalled of the Chapmanies (Indian Accounting Standards Phules, 2015 and relevant amendment.)

Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter. The Company adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") from 1st April 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Sec 133 of the Companies Act. 2013 rared with the relevant rules issued there under. The date of transition to Ind AS is 1st April, 2016.

The figure for the previous periods have been re-grouped, wherever necessary.

The above is an extract of detailed formard of Dautretly results filed with the Stock Exchanges under Regulations 30 the SEBI (Listing and other Discosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange's website www.belndiac.com and company's webs

For & on behalf of SAGAR SYSTECH LIMITED MEENA MUKESH BABU MANAGING DIRECTOR AVI PRODUCTS INDIA LIMITED

THE FREE PRESS JOURNAL www.freepressjournal.in MUMBAI | SUNDAY | AUGUST 13, 2023

(CIN NO.: L24200MH1989PLC050913)

Regd Office: 110, Manish Ind Estate No.4, Navghar Road, Vasai (East), Dist: Palghar - 401210

	AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR				
Sr.No.	Particu j ar		Quarter Ender		Year Ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	114.39	85.26	79.75	369.63
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax.				
	Exceptional and/or Extraordinary items)	1.75	12.77	6.00	27.45
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.75	5.88	4.50	20.56
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.31	5.88	4.50	20.56
5.	Total Comprehensive Income for the period				
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)				
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	1-	-
6.	Equity Share Capital	258.46	258.46	258.46	258.46
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown				
	in the Audited Balance Sheet of the previous year				
8.	Earnings Per Share (of Rs.10 /- each) (for continuing				
	and discontinued operations)				
	1. Basic	0.05	0.23	0.17	0.80
	2. Diluted:	0.05	0.23	0.17	0.80

August 11 2023.

The control of the

युनियन बैंक [🎧 Union Bank

Faizpur Branch Chowk, Post Faizpur, Dist. Jalgaon, Yavral Maharashtra 425503

DEMAND NOTICE

he Borrower/s . **Mr.Sandip Shankarrao Gavande** lidhya Nagar, Faizpur, Tal. Yawal, Distt Jalgaon

Villiyar Kunguni Taguni Taguni

Dear Sir, Notice dt. 22.06.2023 issued to you u/s13(2) of The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcemen of Security Interest Act,2002 by branch/me, the Authorized Officer, was sent to you calling upon to repay the dues in your loar accountswift but at your last known address could not be served. Therefore, the contents of the said demand notice are via

accounts with a comment of the control of the contr

Type of Facility	Outstanding amount as of 31.05.2023	Un applied interest Up to 31.05.2023	Penal Interest (Simple)	Cost/Charges incurred by the Bank	Total dues				
Union Home	6,19,332.47	1,16,463.00	0	0	7,35,795.47				
				Total Dues	7,35,795.47				

Total Dues | 7,35,795.47

Details of the secured assets / Mortgaged Properties

PART - A

All that piece and parcel of land and constructed building Property there on at Gat no. 948, Pot no. 8, Janshakil Nagar, Alf Fatzpu
Janshakil Colony, Fatzpu 425503

On East by: 9 Mir Wildin Road, On West by: Pot no. 5 & 6, On North by: Pot No 8 part of 8, Pot No. 9, On South by: Pot no. 7

Teach by: 9 Mir Wildin Road, On West by: Pot no. 5 & 6, On North by: Pot No 8 part of 8, Pot No. 9, On South by: Pot no. 7

Therefore, you, No. 1, as borrower and you, No. 2, as guarantor in terms of the aforesaid notice have been called upon to pay the aforesaid sum of Rs. 7,35,796.47 (Rupees Seven Lakhs Thirty Five Thousand Seven Hundred Nieter). Five and Forty Seven False Only) together with fulner interest and charges there on within 60 days from the date of this publication. That on your failure to comply thereaff we, secured creditor, shall been titled to exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002. Interest of Security 13(1) and Processing Control of Security 13(1) and Processing Control of Security 13(1) and Processing 13(1) and 13(1) an

Authorised Officer BLACK B⊗X

Black Box Limited

(formerly known as AGC Networks Limite
Office: 501, 5th Floor, Building No.9, Airoli Kr

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

(₹in Crores, unless otherwise stated						
		Quarter ended		Year ended		
Particulars		Unaudited		Audited		
Fallbaars	30/06/2023	31/03/2023 (Refer note 2)	30/06/2022	31/03/2023		
Total income from operations	1,571.41	1,681.92	1,371.69	6,287.56		
Profit before impact of foreign currency transactions and translations, loss on fair valuation of deferred purchase consideration, share of net loss of investment accounted for using equity method, exceptional items and tax	26.84	32.17	21.32	76.04		
Net profit /(loss) for the period before exceptional items and tax	31.46	41.93	22.70	81.76		
Net profit / (loss) for the period before tax after exceptional items	24.40	19.45	17.90	29.45		
Net profit / (loss) for the period after tax after exceptional items	23.94	23.10	15.41	23.70		
Total Comprehensive income / (loss) for the period (Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	34.11	(4.53)	(10.72)	(2.35)		
Earnings before interest, tax, depreciation & amortisation and other income (EBITDA)	91.89	114.73	53.60	289.44		
Paid-up equity share capital (face value of ₹ 2 each)	33.58	33.58	33.55	33.58		
Other equity as shown in the audited Balance Sheet				262.44		
Earnings per share of ₹2 each before exceptional item:						
- Basic (in ₹)	1.85*	2.72*	1.22*	4.54		
- Diluted (in ₹)	1.84*	2.72*	1.22*	4.53		
Earnings per share of ₹2 each after exceptional item :						
- Basic (in ₹)	1.43*	1.38*	0.93*	1.42		
- Diluted (in ₹)	1.42*	1.38*	0.93*	1.41		

The above is an extract of the detailed format of consolidated financial results for the quarter ended on 30 June 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the Stock Exchange's websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.blackbtox.com).

These consolidated unaudited financial results (the 'Statement') have been prepared in accordance with the recognition a measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting (*Ind AS 34), prescrib under section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), and other accounting principles generally accepted in India and is compliance with the presentation and disclosure requirements of Residualition 33 of the SEBI (Listing Obligations as

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

(₹in Crores, unless otherwise						
		Year ended				
Particulars		Unaudited		Audited		
T di ticulars	30/06/2023	31/03/2023 (Refer note 2)	30/06/2022	31/03/2023		
Total income from operations	84.28	96.96	81.67	363.37		
(Loss) / profit before impact of foreign currency transactions and translations, exceptional item and tax	(0.74)	(4.90)	0.83	4.14		
Net (loss) / profit for the period before exceptional items and tax	(0.46)	(5.08)	1.82	5.79		
Net (loss) / profit for the period before tax after exceptional items	(0.46)	(5.08)	1.82	5.79		
Net (loss) / profit for the period after tax after exceptional items	(0.50)	(5.10)	1.93	5.84		
Total Comprehensive (loss) / income for the period (Comprising profit / (loss) for the period after tax and other comprehensive income / (loss) after tax)	(0.61)	(5.17)	2.26	5.98		
Earnings before interest, tax, depreciation & amortisation and other income (EBITDA)	2.30	(1.53)	4.71	17.83		
Paid-up equity share capital (face value of ₹2 each)	33.58	33.58	33.55	33.58		
Other equity as shown in the audited Balance Sheet				295.62		
(Loss) / earnings per share of ₹2 each:						
Basic (in ₹)	(0.03)*	(0.30)*	0.12*	0.35		
Diluted (in ₹)	(0.03)*#	(0.30)*#	0.12*	0.35		

DIN: 00799732

*Not annualised

Notes:

I The above is an extract of the detailed format of financials results for the quarter ended 30 June 2023 filed with the Stock Exchanges under Requisition 33 of SEBI (Listing Diligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full instancial results are available on the solock exchanges whethers (ewww.black.com and www.besindia.com) and Company's website (www.blackbox.com). These standards unraudited financial results (the 'Statement') have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles and down in Indian Accounting Standard 54, literatin Financial Reporting (the A34), prescribed under section 135 of the Companies Act, 2013 (the Act, and other section 136 principles generally accepted in india and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the ESEI (Listing Diligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amented).

The effect of 536,460 potential equity shares outlanding as at 30 June 203 and 31 March 2023, is anti-dilutive and thus these shares are not considered in determining diluted (loss) / carriings per share.

The Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings led on 12 August 2022. The station/y auditors have carried out a limited review of this Statement.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD SANIETY VERMA

Place: Dallas, Texas, United States of America Date: 12 August 2023 CIN: L32200MH1986PLC040652

SANJEEV VERMA WHOLE-TIME DIRECTOR DIN: 06871685

State Bank of India विदेश के प्रतिकार के

कब्जा सूचना

कर्जदारांचे/	मिळकर्तीचे वर्णन	उवंरीत धकीत	मागणी सूचनेची	कब्जाची
हमीदारांचे नाव		(रु.) + व्याज	तारिख	तारीख
		आणि परिव्यय		
श्री. अशोक रामभुवल सिंग	फ्लॅट क्र. ६०५, ६ वा मजला, इमा क्र. ए-४, व्हिवा	09.02.2023	09/02/2023	०९/०८/२०२३
(खाते क्र. ३३३०४३६४२००	सिटी, गाव बोळींज, जे बी नगर, ता वसई, जि. पालघर	रोजीस		
आणि ३३३०४५९१५५१)	X02303	ह. २२,२३,९९७/-		
श्री. रमेश शिवलाल गुजर आणि	पलॅट क्र. ११०५, ११ वा मजला, एल विंग, रूपभ	१७.०५.२०२३	१७/०५/२०२३	०९/०८/२०२३
सौ. लता रमेश गुजर	हाईट्स, इमा क्र. ४, एचडीआयएल टाऊनशिप, स्लोबल	रोजीस		
(खाते क्र. ६५१७७३८०६९९	सिटी जवळ, सेक्टर २, गाव डॉगरे, चाखाल डॉगरी			
आणि ६५१७७३८१३५४)	आणि बोळींज, विरार पश्चिम, जि. पालघ्यर ४०१३०३			

स्टेट बंक ऑफ इंडिय दिनांकः १३.०८.२०२३

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank	फैजपूर शाखा	मागणी सूचना
Charles Desire	पत्ताः सुभाष चौक, पोस्ट फैजपूर, जि.जळगांव, तालुका	कलम १३(२) अंतर्गत
CREDIT RECOVERY AND LEGAL SERVICE DEPARTMENT	यावल, महाराष्ट्र ४२५५०३	कलम १३(२) अतगत
प्रति,		
कर्जदार-		
१. श्री. संदिप शंकरराव गवांदे		
पत्ताः विद्यानगर, फैजपुर, ता.यावल,	Sa sessifia	
जामीनदारः		
१. श्री. जितेंद्रकमार पंडरी चौधरी		
T. St. 14th State Control of the Con	युटर जवळ, फैजपुर, ता.यावल, जि.जळगांव.	
२. श्री. राजकन्या संदिप गवांदे	युटर जवळ, फजपूर, ता.बाबल, ।ज.जळनाव.	
	देशन जवळ, फैजपूर, ता.यावल, जि.जळगांव.	
३. श्री. विलास उद्धव बनकर		
पत्ताः विद्यानगर, १३२ केव्ही सब स	शन जवळ, फैजपूर, ता.यावल, जि.जळगांव.	

पक्षा डिवारमा, १३१ केवही सब स्टेमन उबक, फैजारू, ता ताबल, जि जळांबा. मेंस्पेद, नोटिस है, २८०६, २०२३ सुना आपलाबा सिक्युटिख्येम आणि चिक्न्यद्रकारण्या १३(१) अंतर्गत तुम्हांला जाती केले आहे अंदर जावेशे, माहबार्क्यक, प्रावचारिक्यल अंदिर्स्य ऑफ एफ्योसीम्ट ऑफ सिब्बुटिटि इन्ट्रेस्ट ऑफ २००६ अन्यवे तुम्हांला तुम्खा मेदाटच्या अंव्रावणांकी रूप क्योची प्रताह करणांची आवाहन करणांचारी पाठवले तोते. त्याकुळे या तुम्पवात सद्य प्राणां ने अंद्रिक्यार्थिल सब्दक्र प्रसिद्ध करणांच वेत आहे. प्रताह करणांचारी पाठवले तोते. त्याकुळे या तुम्पवात सद्य प्राणां नो तुम्हांची प्रताहन करणां आहेत. सुम्हियांचा प्रताह सदय स्वाव्य करणांची आहेत अर्थाण क्यान्य स्वाव्य करणांची पूर्ण करणांची आहेत. अर्थाण क्यान्य स्वाव्य करणांची स्वाव्य स्वत्य स्वाव्य स्वव्य करणांची स्वाव्य स्वत्य स्वत

सुविधेचा प्रकार	३१.०५.२०२३ पर्यंतची थकबाकी	३१.०५.२०२३ पर्यंत लागू नसलेले व्याज	दंड व्याज (सिम्पल)	वँकेने लावलेले खर्च/शुल्क	एकुण देव		
युनियन गृह	युनियन गृह 6,19,332.47 1,16,463.00 0 0 7,3						
	एक् ण देव 7,35,795.						
	सुरक्षित मालमत्ता / गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचा तपशील						
भाग–ए							

पूर्व ने १८८ वर्गीट ते , अस्त्रास्त्री सम् ए स्वित है । ते अपन स्वाप्त्र प्रस्ति है । ते अपन स्वाप्त्र स्वाप्त्

ब्लॅक बॉक्स लिमिटेड

BLACK B⊗X

आपला विश्वास् आधिकृत अधिकारी

(पूर्वीचे नाव एजीसी नेटवर्क्स लिमिटेड) इत कार्यालयः ५०१, ५ वा मजला, बिल्डिंग क्र. ९, ऐरोली नॉलेज पार्क, एमआबडीसी इंडस्टीयल एरिया, ऐरोली नवी मुंबई - ४००७०८

३० जून, २०२३ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता एकत्रित अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षांचे विवरण

			(रु. काटात, नमुद	कलल नसल्यास)
		संपलेली तिमाही		संपलेले वर्ष
तपशील		अलेखापरिक्षित		लेखापरिक्षित
	३०/०६/२०२३	३१/०३/२०२३ (टीप २ बघा)	३०/०६/२०२२	38/03/2023
प्रवर्तनातुन एकूण उत्पन्न	१,५७१.४१	१,६८१.९२	१,३७१.६९	६,२८७.५६
परकीय चलन व्यवहार आणि रुपांतराच्या परिणाम स्थिगित खरेटी मोबदल्याच्या रास्त मूल्यावर तोटा, इकिटी मेथडने गुंतवणुक द्रायित्वावरील तोटा, अपवादात्मक बाबी आणि करपूर्व नफा	२६.८४	\$2.80	२१.३२	७६.०४
कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) अपवादात्मक बाबी आणि करपूर्व	३१.४६	88.93	२२.७०	28.95
कालावधीकरिता कर पूर्व निव्वळ नफा /(तोटा) अपवदात्मक नानी पश्चात	28.80	१९.४५	१७.९०	२९.४५
कालावधीकरिता करोत्तर निव्वळ नफा /(तोटा) अपवादात्मक बाबीपश्चात	23.98	२३.१०	१५.४१	२३.७०
कालावधीकरिता एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न /(तोटा)(करपश्चात काला -वधीकरिता नफा आणि करपश्चात इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न धरून)	\$8.88	(४.५३)	(१०.७२)	(२.३५)
ञ्याज, कर, घसारा कर्जफडीची तरतुद आणि इतर उत्पन्न (इबीआयटीडीए) पूर्व प्राप्ती	99.69	११४.७३	५३.६०	२८९.४४
भरणा झालेले समभाग भांडवल (प्रत्येकी रु. २/- चे दर्शनी मूल्य)	33.40	३३.५८	33.44	३३.५८
लेखापरिक्षित ताळेबंदात दर्शविल्यानुसार इतर इक्विटी				२६२.४४
अपवादात्मक बार्बीपूर्व प्रत्येकी रु. २/= च्या प्रती समभाग प्राप्ती				
मुलभूत (रु.त)	१.८५#	२.७२ [‡]	₹.२२ ^{‡‡}	8.48
सीम्बिकृत (रु.)	₹.८४ [®]	२.७२ [®]	१.२२ [‡]	8.43
अपवादात्मक वार्वीपश्चात प्रत्येकी रु. २/- च्या प्रती समभाग प्राप्ती				
मूलभूत (रु.)	₹.४३ [®]	₹.३८ [®]	0.938	१.४२
सीम्पिकृत (६.)	१. ४२ [®]	₹.३८ [®]	0.934	१.४१
0 sanifiatura				

ज्यार प्रशास के किसी की किसी

न्न २०२३ गोजी संप्रलेल्या निमाहीकरिता अलिप अलेखापरिधित विनीय निष्कर्षांचे विवसा

		(3	ह. कोटीत, नमुद व	हेलेले नसल्यास
		संपलेले वर्ष		
तपशील		अलेखापरिक्षित		लेखापरिक्षित
	३०/०६/२०२३	३१/०३/२०२३ (टीप २ बघा)	३०/०६/२०२२	38/03/202
प्रवर्तनातुन एकूण उत्पन्न	68.36	98.98	८१.६७	353.31
परकीय चलन व्यवहार आणि रुपांतराच्या परिणाम अपवादात्मक वाबी आणि करपूर्व (तोटा)/ नफा	(86.0)	(४.९०)	\$5.0	8.81
कालावधीसाठी निव्वळ नफा(तोटा) अपवादात्मक बाब आणि करपूर्व	(٥.४६)	(4.0८)	१.८२	4.00
कालावधीसाठी करपूर्व निञ्चळ (तोटा)/नफा अपवादात्मक बाबीनंतर	(٥.४६)	(4.0८)	१.८२	4.0
कर पश्चात कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)/अपवादात्मक बाबीनंतर	(0.40)	(५.१०)	8.93	4.63
कालावधीकरिता एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न/(तोटा) (करपश्चात काला- वधीकरिता नफा/(तोटा) आणि करपश्चात इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न/(तोटा) धरुन)	(0.53)	(4.89)	२.२६	4.9.
व्याज, कर, घसारा आणि कर्जफेडीची तरतुद आणि इतर उत्पन्न (ईन्नीआयटीडीए) पूर्व प्राप्ती	२.३०	(१.५३)	४.७१	१७.८३
भरणा झालेले समभाग भांडवल (प्रत्येकी रु. २/- चे दर्शनी मूल्य)	33.46	33.46	33.44	\$\$.46
लेखापरीक्षित तालेबंदात दर्शविल्यानुसार इतर इक्विटी				२९५.६३
प्रत्येकी रु. २ च्या प्रती समभाग प्राप्ती/(तोटा)				
मूलभूत (रू.)	\$(\$0.0)	(ο,ξο) [®]	o.१२ [®]	0.35
सौम्यिकृत (रु.)	# [‡] (ξο.ο)	(o.3o)##	0.82*	0.35

अध्यासकान्त्र प्राप्त स्वाप्त अंग्रह डिहम्सलोव विवास विद्याप्त २०१५ च्या चेनुतेश ३३ अंगर्त वर्डाच एसम्बेनकडे दण्यत केलील्या ३० त्या प्रीत (सिटिंग आसिलांग्रस अंग्रह डिहम्सलोवत विवास विव

			Res	ults	
		Quarters		Years Ended	Years Ended
Sr.	Particulars	30-Jun-2023			
No.	1 articulars	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	4,982.39	1,972.25	1,504.84	8,460.47
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,				
	Exceptional and/or Extraordinary items)	44.64	(24.99)	47.72	(109.03)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.64	(24.99)	47.72	(109.03)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	21.08	(24.80)	53.21	(102.95)
5	Total Comprehensive Income for the period				
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)				
	and other Comprehensive Income (after tax)]				
	Equity Share Capital	900.88	781.07	900.88	900.88
	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in				
	the balance sheet)				
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	Basic	0.25	(0.33)	0.64	(1.23)
10	Diluted	0.25	(0.33)	0.64	(1.23)

above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the anges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguiren lations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock and the full formation of the Stock state of the Stock state of the Stock and the Stock state of the Stock stat

ary. By order of the Board of Director For RR Metalmakers India Limite

Whole Time Director DIN- 00764424

caprihans

नों. कार्यालय : ध्लॉक डी, रेशवसागर हस्टर, डा. अनो बंझट रोड, बत्की, मुंबई-४०० ०१८. ई-मेल : cil@caprihansindia.com । वेबसाईट : www.caprihansindia.com दुरध्वनी : ०२२ - २४९७८६६०/६१

३० जन २०२३ रोजी

эт.			मागील वर्ष संपले		
ph.	तपशील	३० जून २०२३ (अविनालेखित)	मार्च ३१, २०२३ (लेखापरीक्षित)	जून ३०, २०२२ (अविनालेखित)	मार्च ३१,२०२ (लेखापरीक्षित
٤	प्रवर्तनातून एकूण उत्पन्न	१७५.९५	२२८.६९	२४३.९९	986.1
٩	कालावधीसाठी निव्वळ नफा (कर आणि अपवादात्मक बार्बीपूर्वी)	११.०६	3.68	-8.89	-28.
3	कालावधीसाठी करपूर्व निव्वळ नका (अपवादात्मक बाबीनंतर)	११.०६	१२५.१३	-8.89	१०५.
x	कालावधीसाठी करोत्तर निव्वळ नफा (अपवादात्मक वार्वीनंतर)	१०.६७	98.74	-4.03	७१.
ď	कालावधीसाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (कालावधीसाठी (करोत्तर) नका आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न (करोत्तर) धरून)	१०.८२	93.24	-4.00	190.
ξ	समभाग भांडवल (चे दर्शनी मूल्य	१३.१३	१३.१३	१३.१३	१३.
e	लेखापरिश्वित ताळेबंदात दर्शवल्याप्रमाणे राखीव (पुनर्मुल्यांकित राखीव वगळून)	_	_	_	१०९.
۷	प्रति भाग प्राप्ती (दर्शनी मूल्य प्रत्येकी इ. १०/- चे) (अपवादात्मक वार्वीनंतर) मूलभूत आणि सीम्चिकृत (स्वकम इ. मध्ये)	-6.83	७१.७६	-3.63	48.
٩	प्रति भाग प्राप्ती (दर्शनी मत्य प्रत्येकी र १०/ चे	۵.٤३	30.90	-3.63	48.

ा वेशिक माहिती म्हणाये सीची (शिसिटेंग ऑण्ड अस्टा डिस्म्मारीज रिजवायरमेंट्या) रेप्यूलीग्रम् २,२०५, प्या रेप्यूलीग्रम ३३ अंतर्गत सीएसई स्मिद्ध स्मिद्ध सेहार सेहेल्या ३० पूर, २०२३ रोज ओर्डात सीएसई स्मिद्ध स्मिद्ध सेहार सेहेल्या ३० पूर, २०२३ रोज आहे. तिमाही आणि वर्षाण्ड निष्ण्याची स्मिद्ध सेहार है सेहार सेहा

ठिकाण : मुंबई दिनांक : ११ ऑगस्ट,२०२३

ந் C.J.GELATINE PRODUCTS LIMITED

CIN-L24295MH1980PLC023206

Regd. Office: Plot No. 237, Azad Nagar Rahivashi Sangh, Acharya Donde Marg,

Regd. Office: Plot No. 23/, Azad Nagar Kahiwashi Sangh, Acharya Donde Marg, Sewree (W) Mumbai - 400015 (M.H.) Tei: 07480-423308, 423301 Email: cjsecretarial@gmail.com + Web: http://www.cjselatineproducts.com STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2023

(Rs. in Lacs except EPS)				
	Particulars	Quarter Ended 30/06/2023 Unaudited	Quarter Ended 30/06/2022 Unaudited	Year Ended 31/03/2023 Audited
1.	Total Income from Operations (Net)	1051.64	1057.96	3680.38
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	36.03	7.40	31.87
3.	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-33.79	7.40	31.87
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	-33.79	7.40	22.93
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	-33.79	7.40	22.93
6.	Paid-up Equity Share Capital	481.33	481.33	481.33
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year (i.e. 31-03-2023)		-64.95	
8.	Earnings per Share (of Rs.10/- each) (For Continuing & Discontinued Operations) Basic & Diluted:	-0.70	0.15	0.48

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with the BSE Lott, Formerly Bombay Stock Exchange) under Regulation 33 of the SEIG (Listing Obligations) and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of respective Stock Exchange i.e., www.bseindia.com and on Company's website i.e., www.cgelatineproducts.com

For G. J. Gelatine Products Limited For C.J.Gelatine Products Limited

Jaspal Singh Chairman & Managing Director DIN: 01406945 Date : August 12, 2023

इंडिया एसएमइ असेट्स रिकन्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (क्षेत्रणार: पुरुष १,०१९ण १००० कंपनी१८८४२) शेलीकृत वार्यात्य: असेत हाजा, २ ग मसला, गेड काल १८३, स्टल क्रमांक १२, स्टल, क्रमेंत १२, स्टेस स्टल्पी: १९ १२ १६९६ ११०, १ में ११ क्षाई क्रमांक १२, स्टल क्रमांक १२, स्टेस, असेवी (पूर्व), मुंबई ४०० ०१३,

तावा सूचना नियम ८ (१) (नारायण टेक्सटाईल्स कर्ज खात्यातील स्थावर मालमत्तेसाठी)

ात्रवा सुरुप्त । तथा तथा (१)

(सारामण देक्सद्रिक्का के सामान्या स्वावस्त्रका समान्य सामान्य स

ते पर (१) - (१) ने देश के प्रकार माध्यान पुत्रान वार्य आगा अवदेश हाल्य प्रकार पात्र असार (१) व्याप माध्यान प्रकार के अन्तर, प्रकार अस्यान माध्यान परिवर्ध प्रकार के प्रकार के अन्तर के अन्तर अस्यान माध्यान परिवर्ध प्रकार के प्रकार के अन्तर के प्रकार अस्यान के प्रकार के अन्तर के प्रकार अस्यान के प्रकार के अन्यर के प्रकार के अन्यर के प्रकार के अन्यर के प्रकार के प्रकार के प्रकार के स्वाप्त के अस्य अस्य के प्रकार के प्रक्ष के प्रकार के

आयबीसी, २०१६ अंतर्गत विक्री सूचना

ते. प्रार्थकोर्ग स्थिति विकास किए (स्वाप्यतार्था)
पीयावर्षांचा पान - १-१-१८, अर्थ, कि. १८, ती व्याप्य नामार्थातः,
व्याप्यान्धांचा पान - १-१-१८, अर्थ, कि. १८, ती व्याप्य नामार्थातः,
व्याप्यमंत्रः, व्याप्य - १-१-१८, त्री व्याप्य नामार्थातः,
व्याप्यान्धाः व्याप्यान्धाः विकास व्याप्यान्धाः विकास विवास वि

मत्ता वर्णन	विक्रीची	राखीव		इअर रक्कम
	पध्दत	किंमत (रु	.)	(₹.)
कंपनीने एक संपूर्ण (कार्यरत संस्था म्हणून) तत्वावर - सीडीची मकथल, बुरगुल आणि राजापूर येथील	कार्यस्त	ह. १५५ छ	रिटी	8. 84.4
३ युनिटस येथे ८६,५६० स्पींडल्सची स्थापित स्पिनींग क्षमता आहे आणि अन्य युनिटची कुचेरकल	संस्था			कोटी
वेथील फेब्रिक मॅन्युफेक्चरॉंग साठी द.सा. १५० लाख मिटर्सची स्थापित क्षमता आहे. ३ युनिटस	म्हणून			
हैद्राबाद एअरपोर्ट पासून सुमारे ६० किमी अंतरावर आणि ४ थे युनिट १५० कि.मी. अंतरावर आहे.				
पात्रता दस्तावेज सादर करण्यासाठी अंतिम तारीख		₹८.0	6.3	0.73
पात्र बोलीदारांचे कळविण्याची तारीख			٧.٦	o २३
निरीक्षणासाठी अंतिम तारीख		04.0	۹.२	o 23
इअर साठी अंतिम तारीख			۹.२	o ? 3
ई-लिलाव वारीख			۹.२	o २३
१. इच्छक अर्जदार वेबसाईट https://bankauctions.in वर उपलब्ध असलेल्या किंवा ई-मेलने c	irosurvai@o	mail.com F	गर्भत	(विनिर्दिष्टीत

. रणुष्क अनेदार बंबाहरे (सहाटोक्ताकादाताका वा राज्यका असलिया किया ने स्वित देकार कार्यका पार्टित (सिनिदिर्देस क्षेत्रिक) अस्तिर्दिन ने दिवस बेतिया के स्वति क्षारिक परि प्रमुख के स्वति क्षारी के स्वति के स्वति क्षारी के स अस्ति के स्वति के स्वति

in इच्छक बोलीटारांनी कपवा उपरोक्त वेबसाईटसला मेट द्यावी आणि बोली



सिम्प्लेक्स कास्टिंग्ज लिमिटेड

सीआयएन : एल२७३२०एमएच१९८०पीएलसी०६७४५९ नों. कार्यालय : ६०१/६०२ ए, फेअर लिंक सेंटर, ऑफ अंथेरी लिंक रोड, अंथेरी (पश्चिम), गंजर्ग ४०००४ होमेल आयडी: cs@simplexcastings.com

					(হ. লান্ডার
₹.	तपशील		संपलेली तिमाही		संपलेले वर्ष
豖.		३०.०६.२०२३	39.03.7073	30.05.2022	39.03.7073
		(अलेखापरिक्षित)	(अलेखापरिक्षित)	(अलेखापरिक्षित)	(लेखापरिक्षित)
٤	प्रवर्तनातून एकूण उत्पन्न	3429.68	४५०४.०७	१६२८.९५	११७९०.१६
2	अपवादात्मक वांधी आणि करपूर्व				
	प्रवर्तनातून निव्वळ नफा/(तोटा)	34.55	42.32	39.65	२३५.५६
3	करपूर्व निव्वळ नमा/(शोटा)	43.38	42.32	(१३६८.४५)	(१८९०.२८)
γ	कालावधीसाठी करोत्तर निव्वळ				
	नपा /(शोटा)	४३.९७	(१०८.९०)	(१०२६.९९)	(१६९८.८५)
٩	कालावधीसाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न				
	(नका/(तोटा) आणि कालावधीसाठी इतर				
	सर्वसमावेशक उत्पन्न परुन)	83.96	(१२२.९६)	(१०२९.०१)	(१७१२.९१)
ξ	भरणा झालेले समभाग भांडवल	583.83	६१३.१२	६१३.१२	६१३.१२
	(शेभर ची दर्शनी किंमत दाखवावी)	20.00	₹0.00	१०.००	₹0.00
19	इतर इविवटी पुनर्मूल्यांकित राखीय वगजून	1			2834.63
۷	प्रत्येकी रू. १०/- च्या प्रति समभाग प्राप्ती				
	(সবার্থিক) :				

90.0 90.0 (১৬.۶) (১৬.۶) (क) जानक्व पर : पर : प्राच्य स्थापन सेवां (सिन्दींग ऑक्लोगन और दिस्तांत्र रिक्यापार्थेट्स) ऐच्लोगन, २०१५ च्या रेमुलेशन ३३ अंगर्लेश दर्भत स्थापन सेवार्य आप सेलेशन शिमीन रिक्योपा मणीतालार दिस्त्रपात्र एक प्रता आहे. तिनीन रिक्योपी संपूर्ण विशय राजि एसनेदेवारी बेक्सार्ट अफा besenda con लेवीच बेक्सीरी संबार्योद अफा आहामक्टरकांत्रका कर प्रतास्थ आहे. योचीन स्थित १ अर्थोप्त २०१२ द्वारी आहें स्थापन सेविक्स ते स्थापनी संबार्योद स्थापनी स्थापनी

सही/-(संगीता केतन शाह) ववस्थापकीय संचालक

कुन्स्टस्टॉफ्फे इंडस्ट्रीज लिमिटेड

किरण बिल्डिंग, १२८ भाजदाजी रोड, माहुंगा (पूर्व), मुंबई-४०० ०१९ www.kunststoffeindia.com, ई-मेत्तः kunststoffe@kunststoffeir दूर.: ११ (२२) २४०४४८५५/७६, फॅक्स: ९१ (२२) २४०४ ४८५३ सीआयएन नं.: एल६५९१०एमएच१९८५पीएलसी०३७९९८

३०.०६.२०२३ राजा सपलला १ ला तिमाहा आणि तान माहन्य	कारता आलप्त लख	ापारक्षित वित्ताय निष्क	म्बाच विवरण (रु. लाखांत)
अलिम			
	संपलेली तिमाही/ संपलेले चालू वर्ष ३०.०६.२०२३	तारखेपर्यंत वर्षाची आकडेवारी/संपलेले मागील वर्ष ३१.०३.२०२३	मागील वर्षातील संपलेले संलग्न ३ महिने ३०.०६.२०२२
	लेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित
प्रवर्तनातून एकूण उत्पन्न (इतर उत्पन्नासह)	339.89	१,२८९.८७	३४९.०१
कालावधीसाठी निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादात्मक आणि/किंवा अनन्यसाधारण वार्बीपूर्वी#)	३७.५९	१७९.१७	43.80
कालावधीसाठी निव्वळ नफा/(तोटा) (करपूर्व, अपवादात्मक आणि/र्किवा अनन्यसाधारण बार्बीनंतर#)	३७.५९	१८०.३२	43.80
कालावधीसाठी करोत्तर निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक आणि /र्किवा अनन्यसाधारण बाबीनंतर#)	२७.८१	१३७.३६	39.84
कालावधीसाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (कालावधीसाठी नफा/(तोटा) (करोत्तर) आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न (करोत्तर) धरून)	२७.८१	१३७.३६	39.84
समभाग भांडवल	Ę ८९.00	६८९.००	EC9.00
राखीव (पुनर्मूल्यांकित राखीव वगळून) मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदात दाखविल्याप्रमाणे	0.00	२१४.४५	0.00
प्रति भाग प्राप्ती (प्रत्येकी रु. १०/- चे) (अखंडित आणि खंडित प्रवर्तनासाठी)			
(ए) मूलभूत	0.80	9.99	০.৭৩
(बी) सौम्यिकृत	0.80	2.99	০.৭৩
	अस्तिम् प्रवर्तनातृत ग्रहूम जन्म्म (इता जन्ममास) कातामधीमाजी निक्क मा (तिप्ट) (क्र., अपनादान्मक आणि / क्रिंचा अस्त्यमधीमाजी निक्क जन्मा (तिप्ट) (क्र.पूर्व, अपनादान्मक आणि / क्रिंचा अस्त्यमधीमाजी निक्क जन्मा (तिप्ट) (क्र.पूर्व, अपनादान्मक आणि / क्रिंचा अस्त्यमधामाण वार्मीकाम्म अस्त्यमधामाण वार्मीकाम्म अस्त्यमधाण वार्मीकाम्म अस्त्यमधाण वार्मीकाम्म अस्त्यमधाण वार्मीकाम्म अस्त्रमधाण वार्मीकाम्म अस्त्रमधाण वार्मीकाम्म अस्त्रमधाण वार्मीकाम्म वार्मीकाम्म प्रवर्धमाणिकाः राज्ञीव वार्मावृत्। मागील वर्षाच्या तेषामधीमित वार्मीकाम्म प्रवर्धमाणीकाः राज्ञीव वार्मावृत्। मागील वर्षाच्या तेषामधीमित वार्मीकाम्म प्रवर्धनामाणे प्रवर्धनामाजी)	अस्तिम संपन्ति विस्मार्थीः विस्तृत्व विस्मार्थीः संपन्ति विस्मार्थीः संपन्ति विस्मार्थीः संपन्ति विस्मार्थीः स्वात्त्ववाद्वाद्वाद्वाः स्वात्त्ववाद्वाद्वाः स्वात्त्वाद्वाद्वाः स्वात्ववाद्वाद्वाद्वाः स्वात्ववाद्वाद्वाद्वाः स्वात्ववाद्वाद्वाद्वाः स्वात्ववाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वा	प्रसंस्वीत विश्वाती । आरावेश्वर्यत वर्षाची संप्रसेत विश्वाती । आरावेश्वर्यत वर्षाची संप्रसेत वाचान वर्ष स्थाने प्रतिकृत कर्ष स्थाने प्रतिकृत कर्ष स्थाने प्रतिकृत वर्ष स्थाने स्थाने वर्ष स्थाने स्थाने वर्ष स्थाने स्थाने वर्ष स्थाने स्था

िए।

उस प्रीत प्रियानी अपने विश्व विश्व के प्रीत प्रति के प्रियं के प्रति के प्रति



कल्याण शाखा प्लॉट क्र. १९६२/१९६३, शिवाजी चौक, कल्याण - ४२१३०१, जि. ठाणे

कब्जा सूचना (सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८(१) अंतर्गत)

(सिवसुरिटी इंटरेस्ट (एफ्सोसंट) रुन्स, २००२ च्या विषय ८(१) अंतर्गत)
नाआर्थी,
निम्मावार्धिकारी बीज आफ बर्सेटर, काच्याण प्राासा, रुप्तरिक्ष, १६५५/१६६६, शिवराती चीक,
काच्याण - ४१३१६ है. उसपेच सीम्युक अधिकारी स्त्रपूर्ण सिवर्टिट और, २००३ (विष्ट स. १५ सर २००३)
अपन्य अमित स्वर १९८, उसपेच सीम्युक अधिकारी स्त्रपूर्ण सिवर्टिट और, २००३ (विष्ट स. १५ सर २००३)
अपने अमेल स्वर १९८ (१९) काच्यालाता सिवर्टिट ट्रेटर (उस्ट १९०५) १९८ स. २००५ (विष्ट स. १५ सर २००५)
अपने अमेल स्वर १९८ (१९) काच्यालाता सिवर्टिट ट्रेटर (प्रार्थकारी १९८ स. २००५ १९८ स. १००४ वर्ष स्त्रप्र स्त्रप्र अस्त्र आमेल स्वर १९८ (१९) काच्यालाता स्वर्ण काच्याला स्वर १९८ (१९) १९८ रहे तो माणांस स्वर वर्ष सार अस्त्रप्र स्त्रप्र स्

ताण मनांच्या वियोवस्थाती उत्तरस्था सेठीन्या सेटार्सित ऐस्टरणा कराम १३ च्या उप-कराम (८) च्या उप-कराम (८) च्या उप्तुर्विकटे क्रेर्स्याने स्थान भीपूर केर्ना क्षेत्रस्था कराम १३ च्या उप-कराम (८) च्या उप्तुर्विकटे क्रेर्स्याने स्थान भीपूर केर्ना स्थान प्रतुर्विकटे क्रेर्स्यान प्रतुर्विकटे क्रांत्रस्था कराम प्रतुर्विकट क्रांत्रस्था कर्म स्थान क्रांत्रस्था कराम प्रतुर्विकट क्रांत्रस्था कराम प्रतिकट क्रांत्रस्था कराम प्रतिकट क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था कराम प्रतिकट क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था कराम प्रतिकट क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था कराम प्रतिकट क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था क्रांत्रस्था कराम क्रांत्रस्था क्रांत्रस्था क्रांत्

अंतर्गत स्तार) ने निर्माणिक पर विस्ता पित्रंकी वर्धीनस्त्रीत सानुत्त्व वे अर्थनि सात्रे क्र. २१, हिस्सा इ. ३१ (दुना सर्वे क्र. २१), संकुरण १, अंतुम्पत १, ४ सावस्त्र मान - नेतार पित्रंकी तालुका - निर्माणी दिवस्त्र कर्मे का निर्माणी प्रतिकार क्रियो क्रांत्र ने स्तार्थ अपनि क्रियो क्रांत्र क्रांत्र क्रियो क्रांत्र क्रांत्र क्रियो क्रांत्र क्रांत

सहा/ – प्राधिकृत अधिकारी (बँक ऑफ बडोदा) ठिकाण : कल्याण दिनांक : १०.०८.२०२३

ठिकाण : डल्लस, टेकसास, युनाबटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२३ सीआवएन : एल३२२००एमएच१९८६पीएलसी०४०६५२

डीआयएन: ०६८७१६८५

ठिकाण: मुंबई दिनांक : १२.०८.२०२३

डीआयएन : ०२६५८७९४